



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 27, 2002/चैत्र 6, 1924

No. 76]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 27, 2002/CHAITRA 6, 1924

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2002

10 प्रतिशत राष्ट्रीयकृत बैंक (अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूति, 2009 का आंशिक मोचन

सं. एफ. 4(2)-डब्ल्यू एंड एम/2002.—भारत सरकार एतद्वारा भारत सरकार की अधिसूचना सं. एफ. 4(13)-डब्ल्यू एंड एम/93 दिनांक 27 मार्च, 1997 द्वारा जारी 10 प्रतिशत भारत सरकार राष्ट्रीयकृत बैंक (अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूति, 2009 (जिसे इसके बाद "विशेष प्रतिभूति" कहा गया है) का विजया बैंक (इसके बाद "बैंक" कहा जाए) को जारी 302 करोड़ रुपए (नामिनल) के कुल मूल्य की विशेष प्रतिभूति में से 25.72 करोड़ रुपए (नामिनल) की राशि के लिए निम्नलिखित शर्तों एवं निबंधनों के अधीन आंशिक मोचन करना अधिसूचित करती है :

1. **पात्रता एवं मोचन के लिए सीमा :**—केवल विजया बैंक ही आवेदन करने तथा विशेष प्रतिभूति मोचित करवाने के लिए पात्र होगा और मोचन की राशि सरकार द्वारा अनुमत इक्विटी पूंजी की राशि तक सीमित होगी, जिसे बैंक द्वारा वापस कर दिया जाएगा। विजया बैंक के सिवाय कोई बैंक, कंपनी, निगम अथवा कोई अन्य निकाय सहित कोई भी अन्य व्यक्ति मोचन के लिए आवेदन करने का पात्र नहीं होगा।
2. **मोचन की कीमत और तारीख :**—विशेष प्रतिभूति प्रत्येक 10,000 रुपए (नामिनल) के लिए 10,000/- रुपये अर्थात् सममूल्य पर मोचित की जाएगी। विशेष प्रतिभूति बैंक से मोचन पर तथा आवेदन के साथ विधिवत् मोचित विशेष प्रतिभूति को भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400 001 में प्रस्तुत करने पर 30 मार्च, 2002 को मोचित किया जाएगा।
3. **ब्याज :**—मोचन की तारीख को विशेष प्रतिभूति पर देय ब्याज बैंक को अदा किया जाएगा।
4. **शेष राशि की वापसी-अदायगी :**—मोचन के पश्चात् बैंक द्वारा धारित कुल 276.28 करोड़ रुपए (नामिनल) मूल्य की विशेष प्रतिभूति की शेष राशि की वापसी-अदायगी, जब तक भारत सरकार द्वारा अन्यथा अधिसूचित नहीं किया जाता, भारत सरकार की अधिसूचना सं. एफ. 4(13)/डब्ल्यू एंड एम/93 दिनांक 27 मार्च, 1997 के पैरा 4 में यथानिर्दिष्ट छः समान वार्षिक किस्तों में की जाएगी।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा  
धीरेन्द्र स्वरूप, अपर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2002

**Part redemption of 10 per cent Nationalised Banks' (Non-Transferable) Special Security, 2009**

No. F. 4(2)-W&M/2002.—Government of India hereby notifies part redemption of 10 per cent 'Nationalised Banks' (Non-Transferable) Special Security, 2009 (hereinafter referred to as "special security"), for an amount of Rs. 25.72 crore (nominal) out of the special security issued to Vijaya Bank (hereinafter referred to as "the bank") vide Government of India Notification No. 4(13)-W&M/93 dated 27th March, 1997 for value aggregating Rs. 302 crore (nominal) subject to the following terms and conditions :

1. **Eligibility and limit for redemption** :—Only Vijaya Bank shall be eligible to apply and get the special security redeemed and the amount of redemption shall be limited by the amounts of equity capital allowed by the Government to be returned by the Bank. No other person including any bank, company, corporation or any other body except the Vijaya Bank shall be eligible to apply for redemption.
2. **Price and date of redemption** :—The special security will be redeemed at Rs. 10,000/- for every Rs. 10,000 (nominal) i.e. at par. The special security shall be redeemed on 30th March, 2002 on application from the Bank and on tendering of the special security duly discharged along with the application at the Public Debt Office of Reserve Bank of India, Fort, Mumbai-400001.
3. **Interest** :—Interest payable on the special security as on the date of redemption will be paid to the Bank.
4. **Repayment of the remaining amount** :—The remaining amount of the special security held by the Bank for value aggregating Rs. 276.28 crore (nominal) after redemption, shall be repayable in six equal annual instalments as specified in paragraph 4 of the Government of India Notification No. 4(13)-W&M/93 dated the 27th March, 1997, unless otherwise notified by the Government.

By Order of the President of India

D. SWARUP, Addl. Secy.